

तुरंत रिलीज के लिए

## **सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स का नाम बदलकर पूर्व मेयर सुजन फेनल के नाम पर रखा**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 सितम्बर, 2021) – आज हुए एक समारोह के दौरान, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) और वाईस 3 और 4 के रीजनल और सिटी काउंसलर्स, मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros) और जेफ बोमैन (Jeff Bowman) ने औपचारिक तौर पर, साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स (South Fletcher's Sportsplex) का नाम बदलकर सम्मान में पूर्व मेयर सुजन फेनल (Susan Fennell) के नाम पर रखा।

स्पोर्ट्सप्लेक्स, मूल रूप से, 28 सितम्बर, 1997 को खुला था। यह कई प्रकार के रजिस्टर्ड और ड्रॉप-इन तैराकी, स्केटिंग, स्पोर्ट्स और फिटनेस प्रोग्रामों के साथ-साथ, रजिस्टर्ड डांस, STEM और बच्चों और युवाओं के प्रोग्राम पेश करता है।

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने 30 सितम्बर, 2020 को, का नाम बदलकर, सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स (Susan Fennell Sportsplex) रखने के लिए मंजूरी दी थी। यह प्रस्ताव, रीजनल काउंसलर मार्टिन मेडेइरोस द्वारा पेश किया गया था और रीजनल काउंसलर्स, माइकल पलेशी (Michael Palleschi), पॉल विसेंट (Paul Vicente), पैट फोर्टिनी (Pat Fortini) और रोएना सैंटोस (Rowena Santos) ने इसकी हिमायत की थी।

### **सुजन फेनल के बारे में**

सुजन फेनल ने, 1988 से 2014 तक, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में सेवा दी थी। इस समय के दौरान, वे, साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स का निर्माण करने में सहायक रहे थे। उनकी लीडरशिप में ही, सिटी के ज्यादातर प्रसिद्ध प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। इनमें शामिल हैं, द रोज थिएटर (The Rose Theatre), फ्लावर सिटी कम्युनिटी कैम्पस एंड सीनियर्स सेंटर (Flower City Community Campus and Seniors Centre), कैसी कैम्पबेल कम्युनिटी सेंटर (Cassie Campbell Community Centre), ब्रैम्पटन सॉकर सेंटर (Brampton Soccer Centre), गोर मेडोज कम्युनिटी सेंटर (Gore Meadows Community Centre), और सेंचुरी गार्डन्स रेक्रिएशन सेंटर (Century Gardens Recreation Centre) और चिंग्कूजी पार्क (Chinguacousy Park) को नया और आधुनिक बनाना।

उन्होंने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के उस प्रयास में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें सिटी ने मेल खाती फेडरल और प्रोविंसियल फंडिंग में, 200 मिलियन डॉलर सुरक्षित किए थे, ताकि ब्रैम्पटन के जूम बस रैपिड ट्रांज़िट (Züm Bus Rapid Transit) प्रोग्राम को असलियत बनाया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने बुजुर्गों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए, छूट वाले किराए की सफलतापूर्वक हिमायत की। उन्होंने धार्मिक स्थानों के लिए, इस तरह के बिल्कुल पहले प्लानिंग फ्रेमवर्क के विकास का भी नेतृत्व किया, जिससे ब्रैम्पटन को, कैंनेडा में सबसे अधिक गतिशील मल्टी-फेथ (कई धर्मों में श्रद्धा रखने वाले) कम्युनिटीज में से एक के तौर पर विकसित किया जा सके। उन्होंने

अलडर्ली (Alderlea), द केनेथ चिशोल्म मैन्शन (The Kenneth Chisholm Mansion) को गिराने से बचाने में निजी भूमिका निभाते हुए, विरासत को सुरक्षित रखने की भी हिमायत की। पिछले 25 वर्षों के मुकाबले, उनके प्रशासन के दौरान, विरासत वाली अधिक इमारतें निश्चित की गई थीं।

500 रेअ लाअसन बुलेवार्ड (500 Ray Lawson Blvd.) में स्थित, सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स नई और सभी मौजूदा फैसिलिटीज को आधुनिक बनाने की योजना के हिस्से के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की पहली ज़ीरो-कार्बन वाली बिल्डिंग बन जाएगी।

### सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स सुधार के बारे में

2019 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपना एनर्जी एंड एमिशन (Energy and Emission) मैनेजमेंट प्लान 2019-2024: ज़ीरो-कार्बन ट्रांजिशन प्रकाशित किया था। इस प्लान के अंतर्गत, सिटी ने प्रोविंसियल और फेडरल ग्रीन हाउस गैस (जी.एच.जी.) (Green House Gas) (GHG) को 2030 तक 30 प्रतिशत और 2050 तक 80 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ब्रैम्पटन की अधिकतर रेक्रिएशन फैसिलिटीज, सिटी की वार्षिक जी.एच.जी. (GHG) निकासियों के लगभग 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। सुधार के लिए सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि फैसिलिटी उच्च जी.एच.जी. निकासियां छोड़ती है। फैसिलिटी में अधिकतर बड़े उपकरणों की संभावित उपयोगिता भी समाप्त होने वाली थी। 2019 के यूटिलिटी डेटे का उपयोग करते हुए, यह निर्धारित किया गया था कि फैसिलिटी वार्षिक तौर पर लगभग 1,100 टन CO<sub>2</sub> छोड़ रही है, जो 238 यात्री वाहनों से पैदा होने वाली निकासियों के बराबर है।

फैसिलिटी पर सितम्बर 2020 में संभाव्यता अध्ययन पूरा किया गया था, जिसमें वे बदलाव शामिल थे, जो ज़ीरो-कार्बन ट्रांजिशन के लिए आवश्यक हैं। अप्रैल 2021 में सिटी काउंसिल के द्वारा पहले तीन-फेज वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और अगस्त 2021 में प्रस्तावों के लिए निवेदन प्रकाशित किया गया था।

### हवाले

“मुझे पूर्व मेयर सुजन फेनल को और ब्रैम्पटन को सभी के लिए रहने, काम करने और खेलने के लिए बेहतर जगह बनाने में उनके समर्पण को सम्मानित करने पर गर्व है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में उनकी 26 वर्षों की सेवा के दौरान, उन्होंने कई ऐसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स के साथ, स्पोर्ट्सप्लेक्स को जीवंत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जो आज हमारी कम्युनिटी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पूर्व मेयर सुजन फेनल ने सिटी काउंसिल में अपने समय के दौरान कई शानदार काम पूरे किए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान, ब्रैम्पटन कर्ज-मुक्त हो गया था और इसे ट्रिपल AAA क्रेडिट रेटिंग मिली थी। उन्होंने असली विरासत दी है और हमारे शहर में बदलाव किया है। हम फैसिलिटी का नाम बदलकर उनके योगदानों का सम्मान करने के लिए उत्साहित हैं।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स नाम रखने के अलावा, खुशी की बात है कि यह फैसिलिटी, नई और मौजूदा फैसिलिटी को आधुनिक बनाने की हमारी योजना के हिस्से के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में पहली जीरो-कार्बन वाली बिल्डिंग बन जाएगी। पूर्व मेयर फेनल ने, इस सिटी में वूमन्स हाकी लाने में और ब्रैम्पटन में खेलों की वृद्धि और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- *जेफ बोमैन (Jeff Bowman), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“मैं यह मान्यता मिलने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वार्ड में पूरा होने वाला, पहला नया कम्युनिटी सेंटर था, जिसका मैंने अल्डरमैन और रीजनल काउंसलर होने के नाते प्रतिनिधित्व किया था। मैंने एक रिक और कम्युनिटी पूल, जिम तथा लाइब्रेरी वाली, 4-रिक की फैसिलिटी में कम्युनिटी रूम के साथ, साधारण, “आम” फैसिलिटी के मूल डिज़ाइन का विस्तार करने की सफलतापूर्वक हिमायत की थी। मैं इस सम्मान के लिए मेयर और काउंसिल की शुक्रगुजार हूँ।”

- *सुजन फेनल (Susan Fennell), पूर्व मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“यह महत्वपूर्ण है कि हम उन व्यक्तियों को सम्मानित करें, जिन्होंने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हमें औपचारिक तौर पर इस महत्वपूर्ण सेंटर का नाम बदलकर सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स रखने की बहुत खुशी हो रही है। साइन बोर्डों को अपडेट करने का काम जारी है और हम अंतिम नतीजे के लिए उत्साहित हैं।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)